



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 24 अप्रैल, 2023

बैशाख 4, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 514/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0 214-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (272)-2023

लखनऊ, 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प0आ0-348

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-10 में अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, किन्तु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अविध के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलम्ब फीस की रकम का 500 रुपये से आधिक्य में एतद्वारा अधित्यजन करती हैं।

2-यह अधिसूचना तारीख 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 514 / XI-2-23-9(47)-17-T.C.214-U.P.Act-1-2017-Order (272)-2023, dated April 24, 2023 :

No. 514 / XI-2-23-9(47)-17-T.C.214-U.P.Act-1-2017-Order (272)-2023

Dated Lucknow, April 24, 2023

IN exercise of the powers conferred by Section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the Act, which is in excess of five hundred rupees for the registered persons who fail to furnish the final return in FORM GSTR-10 by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023.

2. This notification shall be deemed to have come into force on 31st day of March, 2023.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 263 राजपत्र-2023-(766)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 4 सा0 राज्य कर-2023-(767)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।